



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

€•f, „...†‡„, ^%\$^ ^< €€\$•%\$%| •• ' %' ^%\$

€•ƒ “ Š „...† ” €Š...’ (Introduction in Hindi):

$\epsilon \cdot f_n \dots t \dagger \% \tilde{S} < \mathbb{E} \cdot f \cdot \% \dots t \dagger \dagger \tilde{Z} \cdot \bullet < \cdot \cdot \cdot \cdot \tilde{S} \text{---} \dagger \cdot \mathbb{S}^M \dagger f \mathbb{E} \cdot \tilde{Z}, \dot{Y} \dagger, \tilde{Z}' \cdot \dagger < \cdot \% \mathbb{E}' \cdot \chi \tilde{S} \mathbb{C} \mathbb{Z} \cdot \mathbb{E} f \cdot \cdot \cdot \alpha \cdot \mathbb{E} \cdot \mathbb{Y} \% \tilde{S} < \mathbb{E}$
 $\tilde{Z} \cdot \dagger \dagger \wedge \cdot \mathbb{E} \cdot \cdot \cdot \mathbb{S} \mathbb{E} \wedge \tilde{Z}_n \cdot \mathbb{E} f \tilde{Z} \dagger \cdot \mathbb{C} \dagger \sim \dagger \mathbb{E} \cdot \cdot \cdot \mathbb{E} \cdot \tilde{Z} \cdot \mathbb{C} \mathbb{S} \cdot \cdot \cdot \mathbb{T}^M \dagger \sim \cdot \cdot \cdot \mathbb{C} \mathbb{S} \cdot \cdot \cdot \mathbb{C} \dagger \cdot \quad \quad \quad \cdot \wedge \cdot \mathbb{S} \dagger \cdot \dagger \cdot \mathbb{S}^M \alpha \tilde{Z}_n \cdot \ll \mathbb{P} \% \mathbb{E} \wedge \tilde{Z}_n$
 $\mathbb{E} f \tilde{Z} \dagger \cdot \dot{Y} \dagger \cdot \mathbb{E} \cdot \dagger \cdot \mathbb{T}^M \cdot \cdot \cdot \dagger \wedge \cdot \mathbb{C} \mathbb{S} \cdot \cdot \cdot \langle \dagger \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \mathbb{T}^M \dagger \mathbb{T}^M \dagger \cdot \cdot \cdot \mathbb{C} \mathbb{S} \cdot \cdot \cdot \mathbb{C} \dagger \cdot \quad \quad \quad \cdot \wedge \cdot \mathbb{S} \dagger \cdot \dagger \cdot \mathbb{S}^M \mathbb{E} \mathbb{S}, \mathbb{E} \cdot \% \cdot \cdot \cdot \sim \cdot \cdot \cdot \tilde{Z}_n$
 $\ll \dagger \mathbb{E} \mathbb{E} \cdot \tilde{Z}' \cdot \dagger \dagger \dagger \quad \cdot \cdot \% \dots t \dagger \dagger \% \mathbb{E} \tilde{S} \wedge \alpha \cdot \cdot \cdot \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}_n \cdot \tilde{Z} \sim \cdot \dagger \cdot \mathbb{S}^M$

$$a \sim f e \sim \cdot \hat{+} \ddot{Y} \ddot{t} \sim \pm \ddot{+}^2 \cdot \hat{e}^3 \ddot{+} \ddot{+} \hat{e} \ddot{Z} \cdot \bullet \% \ddot{Z} < ' \sim \cdot \% \cdot \circ \text{S} \mu \sim \cdot - \ddot{+} \ddot{Z} e \text{S} \sim > \mathbb{K} f f \hat{e} \% \cdot \ddot{+} \cdot \text{S}^M$$

€• f (Gender) :-

[illegible]

€ • f ^ • ' ^ % \$ _ :-

$$\langle \bullet \rangle_{f, \mathbb{R}}^3 \leq \langle \bullet \rangle_{f, \mathbb{R}}^2 : f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \langle \bullet \rangle_{f, \mathbb{R}}^3 \leq \langle \bullet \rangle_{f, \mathbb{R}}^2$$
[illegible]

€ „oež :-

1. $\hat{\cdot} \pm \quad \mathbb{E} f \check{Z} f \dagger \text{ " } \mathbb{E} \frac{1}{4} S_i^{(\mathbb{R})} \bullet \mathbb{C} \bullet \rangle \bullet \frac{1}{2} \pm \frac{\%}{\%} \mu^{\frac{3}{4}} \langle S_i \text{ , } \text{ " } \bullet \dagger \text{ , } \text{ " } \text{ ; } \text{ " } \mathcal{Z}_{\text{ " } , } \mathbb{E} \check{Z} \frac{1}{2} \pm \text{ " } \text{ } ^{\mathbb{R}} \mathbb{M} \dagger - \mathbb{E} f \check{S}$
2. $\hat{\cdot} \pm \quad \mathbb{E} f \check{Z} f \dagger - \text{ } ^2 \text{ , } \mathbb{E} S_i^{(\mathbb{R})} \bullet \mathbb{C} \bullet \rangle \bullet \frac{1}{2} \mathbb{C} \mathbb{Z} \langle \neg \mu_{\text{ " } , } \mathbb{E}^{(\mathbb{R})} S \bullet \frac{\%}{\%} \text{ , } \langle \text{ } ^{\text{TM}} \dagger \text{ , } \mathbb{E} \bullet \bullet S_{\text{ " } , } \langle \pm S_{\text{ " } , } \hat{\cdot} \mathbb{C} \dagger S - \mathbb{E} f \text{I}$
3. $\text{ } ^a \sim \quad \mathbb{E} f \bullet \text{ } \hat{\cdot} \neg \text{ } ^2 \text{ , } \mathbb{E} S_i^{(\mathbb{R})} \dagger \dagger \text{ " } \mathbb{E} \frac{1}{4} S_i^{(\mathbb{R})} \check{Z} \sim \dagger \neg \rangle \mathbb{E} S \text{ } \text{ } ^a \sim \hat{\cdot} \text{ " } \bullet S \rangle \hat{\cdot} \text{ } ^{\%} \hat{\cdot} \dagger \dagger \hat{\cdot} \text{ } \text{ } \dagger f \dagger \mathbb{C} \mathbb{C} \hat{\cdot} \mathbb{E} f \dagger \dagger \mathbb{C} \dagger \bullet \dagger$
 $\bullet \text{ } ^{\text{TM}} \mathbb{C} \mathbb{Z} \langle \dagger f \dagger \text{ , } \text{ " } \bullet \dagger \text{ , } \sim \frac{\%}{\%} \langle \neg \mu_{\text{ " } , } \sim \frac{\%}{\%} \mathbb{E}^{(\mathbb{R})} S \bullet \frac{\%}{\%} \text{ , } \langle \dagger f \dagger \langle \frac{1}{2} \pm \frac{\%}{\%} - \mathbb{E} f \check{S}$



Number :-

Number is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Number :-

Number is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Number is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Number is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Number is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Case :

Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

Case :-

Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.

- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.
- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.
- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.
- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.
- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.
- Case is a mathematical concept used to count and measure. It is a fundamental concept in mathematics.



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

$$\hat{\cdot} \bullet \cdot \rangle \bullet \downarrow \textcircled{Z}^{\text{TM}} \cdot \hat{\cdot} \S \bullet_{\parallel} \in f^{1/4} \S_{\parallel} \check{Z} \S \dot{1}_{\dagger}^{3/4} \bullet^{\text{TM}}$$
[illegible]



Que. -१-००%...त ... %३३

Ans. -१-००%...त ... %३३
००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

Que. What is Ling Vachan Karak?

Ans. १. ००%...त ... %३३
००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

• १. ००% (Gender):

००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

• ...त (Number):

००%...त ... %३३

००%...त ... %३३

• ००% (Case):

००%...त ... %३३

००%...त ... %३३

००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

००%...त ... %३३

००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

००%...त ... %३३
००%...त ... %३३

००%...त ... %३३



– $\mathbb{E}^{\wedge} \cdot \mathbb{E}_{,,} \% , i \mathbb{S}^{\circ} \mathbb{R}_{,,} \% :-$

- $\mathbb{Z}_{,,} \%^{\wedge} \% \mathbb{E} \cdot f \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- $\neg \mathbb{S}^{\circ} \%^{\wedge} \% \mathbb{E} \cdot f \mathbb{E} \mathbb{S}_{,,} \mathbb{Y} \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- $\cdot - \wedge < \wedge \% \mathbb{Z}_{,,} \dots \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \mathbb{S} \mathbb{Y} \% \mathbb{Z} \ll$
- $\cdot \mathbb{Z} \dagger \wedge \% \mathbb{Z}_{,,} \dots \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- $\mathbb{E} \cdot f \cdot \cdot \cdot \mathbb{S} \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- $\wedge \mathbb{E}_{,,} \wedge < \mathbb{E} - \pm \mathbb{Z} f \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- $\mathbb{Z} \% \mathbb{Z} < \wedge < \mathbb{E} - \pm \mathbb{Z} f \text{ } \cdot \cdot \cdot \% \mathbb{Z} \ll$
- What is the ling of Maali?
- What is the ling of dukaan?

• $\mathbb{Z} \mathbb{E}_{,,} \wedge \mathbb{S} \mathbb{E} < \text{ } \cdot \cdot \cdot \dagger$ (Multiple Choice Questions)

Ques. 1: $\mu \mathbb{E} - \mathbb{Q} \mathbb{E}^{\wedge} \mathbb{E}_{,,} \dots \dagger i \cdot \mathbb{Z} \ll$

- ☐ (A) $\text{ } \cdot \cdot \cdot \wedge \text{ } \cdot \cdot \cdot$
- ☐ (B) $\mathbb{Z} \cdot \cdot \cdot \text{ } \cdot \cdot \cdot$
- ☐ (C) $f \mathbb{O} \text{ } \cdot \cdot \cdot$
- ☐ (D) $\mathbb{Z} \ll f \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot$

Ques. 2: $\mu \mathbb{S} \% \mathbb{E} \cdot \mathbb{T} \mathbb{M} , 1 \%^{\wedge} \mathbb{S}^{\circ} \dagger \mathbb{Z} < \mathbb{Q} \text{ } \cdot \cdot \cdot \mathbb{Z} \% \mathbb{S} \% \mathbb{Q} \mathbb{E}^{\wedge} \mathbb{E} \wedge \% \mathbb{Z} \wedge i \cdot \mathbb{Z} \ll$

- ☐ (A) $\mathbb{Q} \text{ } \cdot \cdot \cdot f \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot$
- ☐ (B) $\mathbb{Z} \ll f \dagger \text{ } \cdot \cdot \cdot$
- ☐ (C) $\mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{Y}$
- ☐ (D) $\mathbb{Q} \mathbb{E} \mathbb{Y}^{\wedge} \% \mathbb{S}$



Ques. 3: $\mu_{\epsilon} \gg \mu_{\epsilon} < \epsilon \frac{1}{4} \check{S} \check{Z} \% \check{Z} \eta'' \text{ ' } \check{Z} \% \mu_{\epsilon} \gg \mu_{\epsilon} < \eta \epsilon^{\sim} \epsilon \dots \dagger \sim \% \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\check{Z} \bullet \cdot \sim \sim$
- ☐ (B) $\dots \wedge \cdot \sim \sim$
- ☐ (C) $f \odot' \sim \sim$
- ☐ (D) $-^2 \mu_{\epsilon} S,^{\circ}$

Ques. 4: $\mu_{\epsilon} \% \check{S} < \eta \epsilon^{\sim} \epsilon \epsilon \bullet f \sim \% \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\mu_{\epsilon} S,^{\circ}$
- ☐ (B) $-^2 \mu_{\epsilon} S,^{\circ}$
- ☐ (C) $\sim \mu_{\epsilon} \check{Z}^{\sim} \epsilon S,^{\circ}$
- ☐ (D) $^3 \dagger' \cdot \dagger^{\sim} \wedge$

Ques. 5: $\mu \bullet - \wedge \bullet \sim \% \check{S} \eta'' \text{ ' } \check{Z} \% \mu \bullet - \wedge \eta \epsilon^{\sim} \epsilon \wedge \% \check{S}^{\sim} \text{ j } \cdot \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\check{Z} \check{Z} \forall$
- ☐ (B) $\wedge < \bullet$
- ☐ (C) $\check{Z} \ll f \dagger^{\sim}$
- ☐ (D) $\eta \epsilon \forall \wedge \% \check{S}$

Ques. 6: $\mu \bullet \dots \check{S} \cdot \dagger \bullet \frac{1}{2} \bullet \% \eta'' \text{ ' } \check{Z} \% \mu \bullet \dots \check{S} \eta \wedge \% \wedge \% \check{S}^{\sim} \wedge \wedge \frac{3}{4} - \epsilon \% \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\wedge \bullet \dagger \bullet$
- ☐ (B) $\wedge < \bullet$
- ☐ (C) $\check{Z} \ll f \dagger^{\sim}$
- ☐ (D) $\eta \eta \dagger \dagger^{\sim}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 7: $\mu^{\sim} \dot{Y} \% \parallel \epsilon^{\sim} \text{E} \epsilon \bullet f^{\sim} < \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $S, \text{C} \% S, \text{R}$
- ☐ (B) $\epsilon S, \text{R} \% \epsilon S, \text{R}$
- ☐ (C) $\check{Z}^{\sim} \epsilon S, \text{R} \% \epsilon S, \text{R}$
- ☐ (D) $\epsilon' \quad \chi \quad \check{S}$



Ques. 11: $\mu \cdot \% \wedge \dagger \cdot \mathbb{E} \cdot \ddot{Y} \wedge \mathbb{E} \frac{1}{4} \langle \eta \rangle'' \cdot \check{Z} \% \mathbb{P} \mathbb{E} \cdot \ddot{Y} \wedge \eta \wedge \frac{3}{4} - \mathbb{E} \cdot \wedge \% \wedge \cdot \mathfrak{j} \cdot \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\check{Z} \ll f \ddagger \sim$
- ☐ (B) $\check{Z} \check{Z} \mathbb{Y}$
- ☐ (C) $\wedge < \cdot$
- ☐ (D) $\eta \mathbb{E} \mathbb{Y} \wedge \% \check{S}$

Ques. 12: $\mu \mathbb{E} \mathbb{A} < \mathbb{A} - \ddot{Y} \cdot \check{Z} \mathbb{A}'' \cdot \check{Z} \% \mathbb{P} \mathbb{E} \mathbb{A} < \eta \mathbb{E} \wedge \mathbb{E} \dots \dagger \wedge \% \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\dots \wedge \cdot \dots \sim$
- ☐ (B) $\check{Z} \cdot \cdot \dots \sim$
- ☐ (C) $f \hat{\mathbb{O}}' \dots \sim$
- ☐ (D) $\mathbb{E}' \quad \mathfrak{x} \check{S}$

Ques. 13: $\mu \cdot - \wedge \langle \eta \mathbb{E} \wedge \mathbb{E} \mathbb{E} \cdot f \wedge \% \mathbb{E} \mathfrak{z} \cdot \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\mathbb{E} \frac{1}{4} \mathbb{S},^{\circ}$
- ☐ (B) $-^2, \mathbb{E} \mathbb{S},^{\circ}$
- ☐ (C) $\sim \mathbb{E} \cdot \check{Z} \wedge \mathbb{E} \mathbb{S},^{\circ}$
- ☐ (D) $\mathbb{E}' \quad \mathfrak{x} \check{S}$

Ques. 14: $\mu \mathbb{E} \cdot \ddot{Y} \wedge \mathbb{S} \eta \mathfrak{j} \cdot \wedge \frac{3}{4} - \mathbb{E} \% \wedge \% \wedge \cdot \check{Z} \ll$

- ☐ (A) $\check{Z} \check{Z} \mathbb{Y}$
- ☐ (B) $\eta \mathbb{E} \mathbb{Y} \wedge \% \check{S}$
- ☐ (C) $\wedge < \cdot$
- ☐ (D) $\eta \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 15: $\mu \ddot{A} \bullet \eta \epsilon \sim \mathcal{E} \text{ „...} \dagger \text{ } \mathfrak{j} \cdot \check{Z} \mathfrak{K}$

- ☐ (A) $\text{“}^{\wedge}, \text{--} \sim$
- ☐ (B) $\check{Z} \bullet \text{!} \text{--} \sim$
- ☐ (C) $f \mathcal{O} \text{'} \text{--} \sim$
- ☐ (D) $\epsilon \text{' } \mathfrak{x} \check{S}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 19: $\mu f \% \parallel \sim \% \text{€} \text{š} \bullet f \text{ Å} \text{€} \text{ž}^{\text{a}}$

- ☐ (A) \tilde{Z}^{\pm}
☐ (B) $\tilde{Z}^{\pm} \propto q_r$
☐ (C) $\tilde{Z}^{\pm} \propto \dot{A}^{\pm}$
☐ (D) $\tilde{Z}^{\pm} \propto \dot{A}^{\pm}$